

August 01, 2025

The National Stock Exchange of India Ltd.
Corporate Communications Department
“Exchange Plaza”, 5th Floor,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051

BSE Limited
Corporate Services Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Symbol: RELIGARE

Scrip Code: 532915

Sub: Corrigendum and Addendum in continuation to the Notice and Explanatory Statement attached thereto dated July 11, 2025, convening the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) to be held on Friday, August 08, 2025

Dear Sir/Madam,

In furtherance of Notice of Extra-Ordinary General Meeting dated July 11, 2025 (“EGM Notice”) convening an Extra-Ordinary General Meeting of the members of the Company on Friday, August 08, 2025, at 12.00 Noon (IST) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio-Visual Means (“OAVM”) Facility issued by the Religare Enterprises Limited (the “Company”), the Company has issued **Corrigendum and Addendum dated July 31, 2025** in continuation to the EGM Notice dated July 11, 2025, together with the Explanatory Statement thereof.

In regard to above, newspaper advertisement was issued by the Company in Financial Express (in English) and Jansatta (in Hindi) dated August 01, 2025, copies whereof are enclosed herewith for your information and record purpose.

This is for your information and records.

Thanking you,

For Religare Enterprises Limited

Anuj Jain
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

1. President, DOERA Sekhon Vihar, Palam, Delhi Cantt - 110010 invites sealed tenders for **Provision of Security Guard services in Sekhon Vihar.**

2. The tender forms can be obtained from the DOERA office, Sekhon Vihar, Delhi Cantt - 110010 on all working days from **1000h to 1800h (Mon-Sat) from 01 Aug 25 to 12 Aug 2025** on payment of Rs 500/- each (non-refundable).

3. Tender forms duly completed in all respects together with technical & financial Bid, addressed to **"President DOERA Sekhon Vihar Delhi Cantt - 10"**. Allotment will be done by Board of Officers taking into account, rate offered, documents attached, filling up all particulars/details, financial status of bidders, character verification, welfare of troops and other parameters as mentioned in the tender form.

4. All correspondence / Claims concerning bidding are to be addressed to **President, DOERA Sekhon Vihar.** No query / claim concerning bidding will be accepted beyond 10 days of allotment. Decision of President will be fixed and binding. No correspondence on the subject will be entertained on completion of bidding and allotment of contract. All bidders / dependents are expected to follow service norms and ethos in all communication and follow laid down channels.

5. Tenderers may visit the site before applying on any working day. **President DOERA Sekhon Vihar** has the right to accept or reject any tender or application without assigning any reason.

रेलयात्री कृपया ध्यान दें!

महत्त्वपूर्ण सूचना

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु उत्तर रेलवे द्वारा निम्नलिखित आरक्षित विशेष एक्सप्रेस रेलगाडी का संचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

रेलगाडी सं. 04081/04082 नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा – नई दिल्ली आरक्षित एक्सप्रेस विशेष	06 फेरे	
गाडी सं. 04081 आगमन प्रस्थान	स्टेशन आगमन प्रस्थान	गाडी सं. 04082
----- 23:45	नई दिल्ली	10:30 -----
00:58 01:00	पानीपत	07:30 07:32
01:43 01:45	कुरुक्षेत्र जं.	06:48 06:50
02:32 02:40	अम्बाला छावनी	05:50 05:55
04:06 04:16	ढंडारी कलां	04:00 04:10
05:26 05:28	जलंधर छावनी	02:45 02:50
07:15 07:20	पठानकोट छावनी	00:45 00:50
09:15 09:25	जम्मू तवी	23:00 23:05
11:08 11:10	शहीद कप्तान तुषार महाजन	21:48 21:50
11:40 ----	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	---- 21:20

चलने के दिन: 04081 नई दिल्ली से दिनांक 14, 15 एवं 16.08.2025 को तथा 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से दिनांक 15, 16 एवं 17.08.2025 को।

स्थान: प्रथम वाता., वाता. 2 टीयर, वाता. 3 टीयर, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

रेलयात्रियों से अनुरोध है किसी भी जानकारी के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट <https://enquiry.indianrail.gov.in> अथवा NTES ऐप देखें।

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा-हमारा ध्येय

www.nr.indianrailways.gov.in पर क्लिक करें

23/03/2025

पर हों फोनों करें

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा-हमारा ध्येय

www.nr.indianrailways.gov.in पर क्लिक करें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

30

जनसत्ता

1 अगस्त, 2025

**रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय: 1407, 14वीं मंजिल, विटेंसीन टॉवर, 43, नैट्स प्लेस, नई दिल्ली - 110019
CIN: L74899DL1998PLC146935
फ़ोन: +91-11-4472 5676;
वेबसाइट: www.religare.com; ईमेल: investorservices@religare.com

शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाली असाधारण आम बैठक का आयोजन के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2025 को जारी सूचना और उससे जुड़े व्याख्यात्मक वक्तव्य के अनुक्रम में शुद्धिपत्र और परिशिष्ट

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी") ने शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीडी") / ऑडियो विमुद्रल माध्यमों ("ऑडियो") की सुविधा के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की एक असाधारण आम बैठक बुलाने के लिए 11 जुलाई, 2025 की असाधारण आम बैठक की सूचना ("ईनीएम सूचना") जारी की है। कंपनी के सभी शेयरधारकों को ईनीएम सूचना का प्रेषण का कार्य 17 जुलाई, 2025 को पूरा हो गया है।

कंपनी ने परिचरतीय अधिकारों के वैधत निर्णय के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएक्सई") में आवेदन दायर किए थे, जिसके लिए शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जा रही है। इसके बाद, कंपनी को एनएक्सई ने 23 जुलाई, 2025 को एक निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को एक शुद्धिपत्र और परिशिष्ट के माध्यम से सुधार करने/अतिरिक्त विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट ("शुद्धिपत्र और परिशिष्ट") आइटम नं. 1 के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य के तहत किए गए कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में संशोधनों/स्पष्टीकरण और अतिरिक्त विवरण प्रदान करने के लिए जारी किया जा रहा है, जो ईनीएम नोटिस ("व्याख्यात्मक वक्तव्य") से संलग्न हैं।

तदनुसार, यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट 11 जुलाई, 2025 के ईनीएम नोटिस के साथ-साथ उसके व्याख्यात्मक विवरण के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है और यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट 11 जुलाई, 2025 के मूल ईनीएम नोटिस का अभिन्न अंग माना जाएगा और इसे उसके साथ पढ़ा जाएगा। इस तिथि से, ईनीएम नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण को हमेशा शुद्धिपत्र और परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाएगा।

ईनीएम सूचना की अन्य सभी विषय-वस्तु, इस शुद्धिपत्र और परिशिष्ट द्वारा संशोधित या पुष्टक के अलावा, अपरिवर्तित रहेंगी। वीडियो/ऑडियो के माध्यम से ईनीएम में भाग लेने, टीमोई ई-वोटिंग और ईनीएम में ई-वोटिंग से संबंधित सभी प्रक्रियाएं, नोट्स और निर्देश ईनीएम सूचना में बताए अनुसार ही रहेंगे।

यह शुद्धिपत्र और परिशिष्ट बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और एनएक्सई (www.nseindia.com) की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट <https://www.religare.com/egm-2025---prel-issue> पर उपलब्ध होगा।

कंपनी के सभी शेयरधारकों को इस शुद्धिपत्र और परिशिष्ट के प्रेषण का कार्य 31 जुलाई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पूरा हो गया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड

हस्ता/-

अनुमज नैन

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 01 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली



बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. पता : एएन-21-बी, शालीमार बाग, दिल्ली-110088

कच्चा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोस्ताहारी ने, बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तिय आसियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (वित्तिय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 22-06-2025 जारी की थी, जिसमें कर्जदार से, जैसा कि संक्षेप में बताया गया है, सूचना में उल्लिखित राशि रु. 24,14,019.62/- (एकपे चौबीस लाख चौदह हजार उन्नीस और पैसे बारस दाना) एक सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार और आम जनता को सुविधा किया जाता है कि अधोस्ताहारी ने, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 के साथ पठित एक अध्यादेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का संकेतिक कच्चा, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथि को, से लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड की नीचे संक्षेप में वर्णित राशि (+) उस पर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्क उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	आवेदक(को) और सह-आवेदक(को) (कर्जदार) का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कच्चा सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि	कच्चा का प्रकार
1	आवेदक :- श्री नाहर सिंह श्रीमती ज्ञान वती ऋण खाता : BIZLN 2367 2367 ऋण खाता : BIZLN 2648	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : दुकान नंबर 87, सुनि क्षेत्रगत 25 वॉर्ग गज, नई अमाज मंडी हसनपुर, जिला पलवल, हरियाणा-121107	22-06-2025	30-07-2025	ऋण खाता : BIZLN 2367 रु. 13,05,401.32/- ऋण खाता : BIZLN 2648 : रु. 11,08,618.30 योग : रु. 24,14,019.62	सांकेतिक कच्चा

बकाया राशि उपरिवर्णित राशि + मांग सूचना की तिथि से अर्जित भावी ब्याज एवं अन्य प्रमाण।

दिनांक : 01-08-2025

स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी

बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड

इंडियन बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Indian Bank
(A Government of India Undertaking)

इलाहाबाद
ALLAHABAD

दवावप्रसृत आरित प्रबन्धन शाखा
प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन नं०- 0522-2288988

मेसर्स सन इंटरप्राइजेज को एसएएमवी लखनऊ के साथ कारण बताओ नोटिस

सेवा में,
1. मेसर्स सन इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटरशिप फर्म), निवासी ग्राम-दक्खिन गांव, पोस्ट शाहगढ़, जिला-अमेठी (सी.एस.एम. नगर)-227406
2. श्री अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री शिव प्रताप सिंह (प्रोपराइटर), निवासी ग्राम-दक्खिन गांव, पोस्ट-शाहगढ़, जिला-अमेठी (सी.एस.एम. नगर)-227406
3. श्री अमजद खान पुत्र श्री अख्तर खान (जमानतकर्ता), निवासी ग्राम एवं पोस्ट-खोखीपुर, परगना- मोरंगपुर, तहसील-सदर, जिला-सुल्तानपुर-227405
4. श्रीमती अर्चना सिंह पत्नी श्री अजय प्रताप सिंह (जमानतकर्ता), निवासी ग्राम-दक्खिन गांव, पोस्ट शाहगढ़, जिला-अमेठी (सी एस एम नगर)-227405
महोदय,
विषय: मेसर्स सन इंटरप्राइजेज एसएएमवी लखनऊ-क्रॉड घोषित करने हेतु कारण बताओ नोटिस।
आपके अनुरोध पर, बैंक ने अपनी सुल्तानपुर शाखा के माध्यम से मेसर्स सन इंटरप्राइजेज को चावल मिल के लिए कार्याशील पूंजी की आवश्यकता हेतु एकल बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 50.00 लाख रुपये स्वीकृत किए, जहाँ क्रमांक 1 ऋणी फर्म है, क्रमांक 2 स्वामी है एवं क्रमांक 3 व 4 फर्म के गारंटर हैं और उन्होंने दस्तावेज /समर्थित निष्पत्ति दिए हैं। फर्म की ऋण सुविधाओं की अंतिम समीक्षा 04.11.2010 को 50.00 लाख रुपये के लिए की गई। खाता 31.07.2012 को एनपीए में बदल गया। 31.07.2012 तक कुल बकाया राशि 63.39,645/- रुपये (समग्री व्यय को छोड़कर) है।
ऋणी ने अपनी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार ऋण की अदायगी में पूरक की है और तदनुसार ऋण खाते में एक आंतरिक जोर की गई है/घोषावर्गी की शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें शिकायतकर्ता ने उधारकर्ता/मालिक/गारंटरों के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कृत्यों/चूक का आरोप लगाया है।
बैंक द्वारा घोषावर्गी की जांच के लिए गठित बैंक के सक्षम प्राधिकारी (घोषावर्गी जांच समिति) ने उनको समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है और 30.05.2025 को उचित विचार-विमर्श के बाद तदनुसार ऋणी फर्म मेसर्स सन इंटरप्राइजेज, और इसके मालिक श्री अजय प्रताप सिंह और इसके जमानतकर्ता श्री अमजद खान और श्रीमती अर्चना सिंह को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार घोषावर्गी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने की मजूरी दे दी है।
उक्त समिति ने खातों के संचालन में कई कदाचार/चूक और स्वीकृति की शर्तों और विशेष रूप से नीचे उल्लिखित नियमों का पालन न करने का अवलोकन किया है, जो निम्नानुसार हैं:-
क. श्री अमजद खान (ऋणी/जमानतकर्ता) पुत्र अख्तर खान पर बैंक को बिना सूचित किए या बैंक से अनुमति लिए और ऋण का परिसमापन किए बिना मूल स्वामित्व विलेख भारतीय बैंक में जमा होने के बावजूद, पांच बिक्री विलेखों के माध्यम से गुप्त रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचकर बैंक को घोषा देने का आरोप है।
ख. मेसर्स सन इंटरप्राइजेज (20297491534) के मालिक श्री अजय प्रताप सिंह ने ऋणी/जमानतकर्ता के साथ मिलीभगत करके बैंक को घोषा दिया है। उन्होंने मूल स्वामित्व विलेख भारतीय बैंक में बिना सूचित किए या बैंक से अनुमति लिए और ऋण का परिसमापन किए बिना जमा होने के बावजूद, पांच बिक्री विलेखों के माध्यम से गुप्त रूप से गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचकर बैंक को घोषा दिया है।
ग. श्रीमती अर्चना सिंह (जमानतकर्ता) पत्नी श्री अजय प्रताप सिंह पर बैंक को घोषा देने में उधारकर्ता और बीचकर्ता के साथ मिलीभगत करने का आरोप है।
ऋणी फर्म और उसके स्वामी तथा जमानतकर्ताओं की और से घोषावर्गी के उपरोक्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, समिति ने प्रथम दृष्टि संबंधित खाते के आवरण में घोषावर्गी के तात्व/तथ्यों का अवलोकन किया है।
यदि आप चाहें, तो इस सूचना की प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर बैंक को उपरोक्त कदाचार/चूक/अनुपालन न करने के विरुद्ध इष्ट संबंध में अध्यावेदन/प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आपको घोषावर्गी के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए। कृपया ध्यान दें कि यदि निशचित अवधि के भीतर कोई अध्यावेदन प्राप्त नहीं होता है या बैंक आपके द्वारा प्रस्तुत अध्यावेदन/प्रस्तुति से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक तत्कालीन आदेश पारित करने के बाद ऋणी फर्म और उसके स्वामी तथा जमानतकर्ताओं को घोषावर्गी के रूप में वर्गीकृत करने की कार्यवाही करेगा।
कृपया यह भी ध्यान दें कि बैंक आरबीआई, सिविल और अन्य ग्रेजिट कार्यालयों को ऋणी फर्म और उसके स्वामी तथा जमानतकर्ताओं के नाम घोषावर्गी के रूप में सूचित करेगा और उचित कानूनी कार्रवाई करेगा।
मुख्य प्रबंधक
विलफ्रुत डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (WDSC)

दिनांक: 17.07.2025

स्थान: लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी



जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
विभाजित कार्यालय / प्रभाव कार्यालय : जीआईसीएचएफएल, लेजलंड इंडोरेस बिल्डिंग, 65वां तल, 14, बगरोड़ी लॉड मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- 400020, दूरभाष सं.: 022- 43041900, ईमेल : investors@gichf.com, corporate@gichf.com, वेबसाइट : www.gichfindia.com
दिल्ली शाखा कार्यालय : बुलीएन-10 ए ई कैंपबलगा थ्रिडिंग, 18, बाराकला रोड, क्लोटे रोड, दिल्ली- 110001,
कार्यालय दूरभाष : 011- 23556430 / 23731669, शाखा ईमेल आईडी : delhi@gichf.com,
संपर्क विवरण : प्रदीप सिंह - 8851292527 / 6396538102
वेस्ट लोड्डा शाखा : सुनित नं.-303, तुलीय तल, ट्रेड्स सेंटर- 1, क्राइस्टियन बेल्ट, अलन- 1, वेस्ट नोड्डा, उत्तर प्रदेश- 201308
कार्यालय दूरभाष : 0120- 4307427, शाखा ईमेल आईडी : greater_noida@gichf.com, प्राधिकृत अधिकारी का नाम : जयदीप भाटिया - 8744090081

मेगा ई-नीलामी विक्रय सूचना
ई-नीलामी तिथि : 19-08-2025 / बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 18-08-2025

जबकि अधोस्ताहारकर्ता ने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बीचकर्ताओं को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उनसे उक्त सूचनाओं में उल्लिखित बकाया देय राशि का प्रतिभूतगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव अधोस्ताहारकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत एवं धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भीतिक / संकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का नाम / सोन फाइल में / कच्चा नाम /	संपत्ति पता / संपत्ति क्षेत्रगत (सर्व पता में निर्मित)	मांग सूचना निर्गत तिथि	भीतिक अधिग्रहण की तिथि	30.07.2025 के अनुसार कुल बकाया (बीजीएर, ब्याज एवं अन्य शुल्कों सहित) (रुपये में)	आरक्षित मूल्य (रुपये में)
1	UP0110610004952 / श्री राधिका कुमार / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू-एएफए-2, एफआईडी डीपीए, पञ्चाविक्रमों के समूह, फोर्ड की और बर्ग हाउस में, पॉस्ट सॉल्यू-सी-1, 3/36, सीएफए अंडर रिहाय, पॉन- साहुलगावदर लोनी गाविसगावदर उत्तर प्रदेश- 201102, (निर्मित क्षेत्रगत 550 वर्ग फुट)	14.07.2021	19.01.2021	22,46,210/-	11,08,089/-
2	UP0110610006660 / श्री परमिष्ठ श्रीवास्तव / श्रीमती नील श्रीवास्तव / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू-एएफए-2, एफआईडी, प्रथम तल, हार्ड हाथ में, पॉन सॉल्यू-सी-241, खस सॉल्यू-422, एमएसएफ डेव रिहाय, गीन- साहुलगावदर लोनी, गाविसगावदर उत्तर प्रदेश- 201102, (निर्मित क्षेत्रगत 700 वर्ग फुट)	18.08.2021	19.01.2023	29,90,305/-	13,46,625/-
3	UP0110610003799 / श्री कपूरवीरसिंह / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू- मुजीएफ-1, ऊपरी भाग, पॉन सॉल्यू- 24 और 25, खस सॉल्यू-1964 और 1968 का हिस्सा, कैलाश पुष्प कॉलोनी के-2-2, पॉन- रईसपुर डामना, गाविसगावदर, उत्तर प्रदेश- 201002, (निर्मित क्षेत्रगत 630 वर्ग फुट)	18.08.2021	20.10.2022	27,97,588/-	12,16,779/-
4	UP0110610005793 / श्रीमती कैमली अमर / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू 202, डीपीए सल, पता / टेंस अमिकारों के बिना, सलमें की ओर, पॉन सॉल्यू 65 और 66 का हिस्सा, चरारा सलमें 11/20 में से, मटिलाता नील की चरारा सलमें, आसदी क्षेत्र जिले कॉलोनी सलमें सल पार्क के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक-सी, उत्तर नगर, नई दिल्ली - 110059 में स्थित है। (निर्मित क्षेत्रगत 450 वर्ग फुट)	04.01.2020	24.12.2020	40,16,912/-	15,71,704/-
5	UP0110610006727 / श्री अनिल कुमार / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू- सी-2, तुलीय तल, पता एफआईडी लोडिंग, पॉन सॉल्यू- 107, खस सॉल्यू- 222, रेश विहार, गीन- साहुलगावदर लोनी गाविसगावदर उत्तर प्रदेश- 201102, (निर्मित क्षेत्रगत 422.91 वर्ग फुट)	18.08.2021	14.10.2022	22,29,837/-	9,69,570/-
6	UP0110610002962 / श्री अजय शर्मा / श्रीमती मीनू शर्मा / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू- मुजीएफ-1, ऊपरी भाग, छायाविकारों के बिना (एफआईडी) पॉन सॉल्यू- सैफ्ट सॉल्यू-5/1, खस- सॉल्यू- 1579 में से, कैलाश पुष्प- (1) पॉन- रईसपुर डामना, गाविसगावदर, उत्तर प्रदेश- 201002	11.02.2019	08.01.2021	33,05,280/-	10,59,602/-
7	UP0110610004086 / श्रीमती काली कर्णनाथ / दिल्ली	सैफ्ट सॉ- एएफए-सी, डीपीए सल, पञ्चाविक्रमों के बिना निर्मित क्षेत्रगत 640 वर्ग फुट पॉन सॉल्यू-49, खस सॉल्यू- 549 में से, विस्तारित आसदी लाल क्षेत्र के अंदर, गीन-डुबई, दिल्ली-110085 में स्थित है।	06.02.2019	29.12.2020	42,44,828/-	13,12,659/-
8	HR0110610007298 / श्री विजय सरसेना / श्रीमती रुक्मा सरसेना / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू-303, तुलीय तल, पञ्चाविक्रमों के बिना, पॉन सॉल्यू 7 और 8, खस- सॉल्यू- 10887 / 7293 / 5490 / 2027, 10889 / 5490 / 2, 2929 में से, लोनी विहार सलमें कॉलोनी, काला सिक्का, मोना मुकुण्ड, हरियाणा- 122001 में स्थित है (आयुक्त क्षेत्रगत 350 वर्ग फुट)	08.02.2022	04.03.2024	21,56,957/-	11,01,606/-
9	DL0110610003046 / श्री अनिल शर्मा / श्रीमती प्रदीप शर्मा / दिल्ली	निर्मित, सुनि तल, पता / टेंस अमिकारों सहित, 60 वर्ग गज क्षेत्र का क्षेत्रगत, सलमें सॉल्यू-16 का हिस्सा, पॉन सॉल्यू- टोपक-3, खस- सॉल्यू- 18/23 में से, गीन-मटिलाता नील एवं न्यू टी-ब्लॉक नामक कॉलोनी, फेज-1, उत्तर नगर, नई दिल्ली- 110059 में स्थित (निर्मित क्षेत्रगत 450 वर्ग फुट)	13.12.2019	30.08.2022	26,30,175/-	12,31,200/-
10	HR0110610004463 / उषा अरोड़ा / प्रेमिष्ठ अरोड़ा / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू- एएफए-202, नीचे की भूमि के मुख्य में आयुक्तिक हिस्सा, मुख्य सॉल्यू 68/8 पर निर्मित, खस सॉल्यू 4206/1748 के अंदर, पुली ईएलएफ कॉलोनी मुकुण्ड का नाम विहित आवासीय कॉलोनी, तबसीरी और पिता मुकुण्ड हरियाणा में स्थित है (आयुक्त क्षेत्रगत 700 वर्ग फुट)	29.04.2023	22.10.2024	63,76,426/-	28,63,057/-
11	DL0110610005843 / श्रीमती सुनील / श्री सुनील / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू- मुजीएफ-105ए, खस सॉल्यू : ऊपरी नु तल, खस सॉल्यू सं. 774/25 और 774/27 (तुलीय सॉ- 774/11 निर) खस का नाम : ईमएल डेवेलोप, टीएच ए/ डेवेलोप विहा विकसन के नाम, नील : रोड मंडी, लड्डुका : भारतीय, राज्य : दिल्ली, पिन कोड : 110047 (क्षेत्रगत लगभग 1032 वर्ग फुट)	27.07.2023	08.10.2024	43,23,570/-	27,04,793/-
12	UP0110610002943 / शेखन सई / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू एफएफ 03 प्रगत तल, (1 बीएफई) (आवृत्तिक के बिना) खस सॉल्यू- 1494 में से, पॉन सॉल्यू 62 और 63, सॉल्यू गार्डन - गीन गावडेरी परगना और तबसीरी वादरी, जिला नीलान बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201008 में स्थित क्षेत्रगत 333.67 वर्ग फुट)	18.08.2021	18.02.2025	16,54,236/-	5,83,200/-
13	UP0110610004600 / सुखराम सिंह प्रदीप / श्रीमती मीनू सुनील / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू 300 (तुलीय सॉल्यू) बिना पतन की सॉल्यू सॉल्यू 84, 85 और 96 जो खस सॉल्यू- सी-8/2, अमलीनी कॉलोनी कौलपुर, अंडर रिहाय, गीन- साहुलगावदर, परगना लोनी अमलीनी कॉलोनी जिला गाविसगावदर उत्तर प्रदेश- 201008 में स्थित, (निर्मित क्षेत्रगत 405 वर्ग फुट पार्क 37.82 वर्ग मीटर)	10.07.2021	10.02.2025	17,38,854/-	6,90,800/-
14	UP0110610005843 / कलेश कुमार / दिल्ली	सैफ्ट सॉल्यू बीएफए-1, फूलर (सलमें की ओर) छायाविकारों के बिना (एफआईडी) पॉन सॉल्यू- सी-8/2, अमलीनी कॉलोनी कौलपुर, अंडर रिहाय, गीन- साहुलगावदर, परगना लोनी अमलीनी कॉलोनी जिला गाविसगावदर उत्तर प्रदेश- 201102 में स्थित (आयुक्त क्षेत्रगत 559 वर्ग फुट आयुक्त 51.08 वर्ग मीटर)	10.07.2023	23.01.2025	11,66,467/-	13,12,200/-
15	UP01106100000276 / विमलेश कुमार / ग्रेटर नोड्डा	खस सॉल्यू 1540, बकान सॉल्यू : एएफए-1, तल सॉल्यू : एएफए, पॉन सॉल्यू 41-48, गली का नाम : अमर सुन, लोनीमार्ग : उगा मंडिकोण, गीन : रईसपुर, खस : मोरंगपुर, लखनऊ : गाविसगावदर, राज्य : उत्तर प्रदेश, पिन कोड : 201002, पॉन का निर्मित क्षेत्रगत = 590 वर्ग फुट।	14-08-2021	29-11-2022	25,07,215/-	11,00,413

16	UP0710600000196 / श्रीमती शैली / ग्रेटर नोड्डा	खस सॉल्यू 1557 1558, बकान सॉल्यू : एएफ-2 एकआईडी, तल सॉल्यू सलम, नुईर सॉल्यू : 102-103-104, गली का नाम : कैलाशपुष्प, सैफ्ट सॉल्यू सॉल्यू : कैलाशपुष्प-2, सैफ्ट सॉल्यू : सलमई नगर हाउस गीन : रईसपुर, खस : रईसपुर, लखनऊ : गाविसगावदर, राज्य : उत्तर प्रदेश, पिन कोड : 201002, पॉन का निर्मित क्षेत्रगत = 630 वर्ग फुट।	12-07-2021	29-11-2022	34,34,208/-	16,69,815/-
17	UP0710600000594 / श्रीमती सुनील / ग्रेटर नोड्डा	बकान का नाम : उमरका नदी, बकान सॉल्यू : टोपक-2, तल सॉल्यू : तुलीय, पॉन सॉल्यू : 41-48, गली का नाम : अमर सुन, लोनीमार्ग : उगा मंडिकोण, गीन : रईसपुर, खस : मोरंगपुर, लखनऊ : गाविसगावदर, राज्य : उत्तर प्रदेश, पिन कोड : 201001, पॉन का निर्मित क्षेत्रगत = 545 वर्ग फुट	12-08-2021	29-11-2022	21,60,009/-	9,85,537/-
18	UP0710600000537 / सुनील शर्मा / ग्रेटर नोड्डा	सॉल्यू नं. 1650, बकान का नाम : सलम, नदी, बकान सॉल्यू : एएफए-1, तल सॉल्यू : प्रथम, पॉन सॉल्यू : 4-127, गली का नाम : कैलाशपुष्प कॉलोनी, सैफ्ट सॉल्यू सॉल्यू : कैलाशपुष्प नदी, सैफ्ट सॉल्यू : सलमई नगर हाउस, गीन : रईसपुर, खस : गाविसगावदर, लखनऊ : गाविसगावदर, राज्य : उत्तर प्रदेश, पिन कोड : 201001, पॉन का निर्मित क्षेत्रगत = 630 वर्ग फुट।	09.05.2023	24.04.2024	12,89,480/-	14,54,355/-
19	DL0710600000414 / श्रीमती सुनील / ग्रेटर नोड्डा	सॉल्यू नं. 871, बकान सॉल्यू : सी-4, तल सॉल्यू : तुलीय, गली का नाम : सलम सॉल्यू : 674, सैफ्ट सॉल्यू : सलमई नगर हाउस गीन : रईसपुर, खस : मोरंगपुर, लखनऊ : गाविसगावदर, राज्य : उत्तर प्रदेश, पिन कोड : 110016, पॉन का निर्मित क्षेत्रगत = 405 वर्ग फुट	12-07-2021	17.02.2024	18,74,019/-	11,25,384

ई-नीलामी की तिथि और समय : 19-08-2025 देन-पॉलिस (